



# नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

कॉरपोरेट कार्यालय : ए-11, सेक्टर-24, नोएडा - 201301

जिला गौतम बुद्ध नगर (उ.प्र.),

दूरभाष : 0120 2012294, 2412445, फ़ैक्स : 0120-2412397



# NATIONAL FERTILIZERS LIMITED

(A Govt. Of India Undertaking)

Corporate Office : A-11, Sector-24, Noida-201301,

Distt. Gautam Budh Nagar ( U.P.)

Ph.: 0120-2412294, 2412445, Fax : 0120-2412397

No.NFL/SEC/SE/ 1369

Dated: 27.08.2019

✓ Dy. General Manager (Corp. Relations) Bombay Stock Exchange Limited, Floor 25, Phiroze-Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400001.	Asstt. Vice President (Listing), National Stock Exchange of India Limited, Registered Office (Exchange Plaza), C-1, Block-G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400051.
--	---

**Sub: Newspaper clippings of the Notice of 45<sup>th</sup> AGM, Book Closure and Remote E-Voting.**

Dear Sir,

In Compliance with the provisions of the Regulation 47(3) read with Schedule III of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are pleased to forward herewith the newspaper clippings of the Notice of 45<sup>th</sup> AGM including Book Closure and Remote e-voting details published in newspapers on Tuesday, August 27, 2019.

This is submitted for your intimation and records.

Thanking you,

**Yours faithfully,  
For National Fertilizers Limited**

*R. Kumar*

**(Raj Kumar)  
Company Secretary**



# NATIONAL FERTILIZERS LIMITED

(A Government of India Undertaking)

CIN: L74899DL1974GOI007417

Regd Off.: Scope Complex, Core 3, 7 Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi 110003

Website: [www.nationalfertilizers.com](http://www.nationalfertilizers.com), Email ID: [investor@nfl.co.in](mailto:investor@nfl.co.in)

Telephone: 011-24360066, 24361252

## Notice of 45th Annual General Meeting, Book Closure and Remote e-Voting Information

1. Notice is hereby given that the 45th Annual General Meeting (AGM) of the Members of National Fertilizers Limited ('Company') will be held on Wednesday, the 18th day of September, 2019 at 2.30 P.M. at Joseph Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003, to transact the business as set out in the Notice thereof. Notice of 45th AGM together with Annual Report including Standalone & Consolidated Financial Statements, Auditors' Report and Board's Report for the financial year ended 31st March, 2019 have been sent to the Members of the Company in the permitted mode. The dispatch of the Notice of AGM has been completed on 24th August, 2019. Notice and Annual Report is also available on the Company's website viz. [www.nationalfertilizers.com](http://www.nationalfertilizers.com) as well as on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) viz. [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com)

### 2. Book Closure

Notice is also hereby given under Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 that the Register of the Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 12.09.2019 to 18.09.2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM and payment of dividend.

### 3. Voting through electronic mode

(a) In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide Remote e-voting facility to its Members enabling them to cast their vote electronically for all the resolutions as set in the AGM Notice dated 02.08.2019 through the e-voting services provided by NSDL. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or by means of ballot paper at the AGM venue is 11.09.2019.

(b) The remote e-voting period will commence on Sunday, September 15, 2019 at 9.00 A.M. (IST) and end on Tuesday, September 17, 2019 at 5.00 P.M. (IST). The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The detailed procedure/instructions for remote e-voting are contained in the Notice of AGM.

(c) A person whose name is recorded in the Register of the Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. September 11, 2019 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through ballot paper.

(d) Any person becoming the Member of the Company after the dispatch of Notice of AGM, but on or before the cut-off date, may obtain login ID & password by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or [info@masserv.com](mailto:info@masserv.com). However, if a person is already registered with NSDL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote through Remote e-voting.

(e) A Member may participate at the AGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be entitled to cast his/her vote again. Members may note that the facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM.

### 4. Scrutinizer

The Board of Directors has appointed Shri Sachin Agarwal of M/s. Agarwal S. & Associates, Practicing Company Secretary (CP No. 5910) as Scrutinizer for conducting the voting/polling and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

### 5. Proxy

A Member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote on a poll instead of himself and the Proxy need not be a member of the Company. The instrument appointing Proxy to be valid should be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the commencement of the meeting i.e. by 2.30 P.M. Monday, September 16, 2019.

### 6. Contact details

(a) Members are requested to read the instructions pertaining to Remote e-voting as printed in the AGM notice carefully. In case of any queries/concern/grievance, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and Remote e-voting user manual for Members available at the Download Section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or contact Mr. Amit Vishal, Sr. Manager, NSDL through e-mail at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or on Toll Free No: 1800-222-990 / Telephone No.: 022-24994360 or Mr. Sharwan Mangla, General Manager, M/s. MAS Service Limited (Registrar & Transfer Agent) through email at [sm@masserv.com](mailto:sm@masserv.com) or on Telephone No. 011-26387281/82/83.

(b) The documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM are open for inspection at the Registered Office of the Company on all working days (barring Saturday & Sunday) between 10.30 A.M. to 3.30 P.M. prior to the Annual General Meeting.

### 7. Unclaimed Dividend

As per applicable statutory provisions, the Company will be transferring the unpaid/unclaimed amount relating to Dividend for the financial year 2011-12 to Investor Education & Protection Fund (IEPF) in October, 2019. Members who have not encashed their dividend for the financial year 2011-12 and thereafter, are advised to write to M/s. MAS Services Limited, T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi - 110 020 to claim the same.

### 8. Transfer of shares to IEPF

The Members may kindly note that pursuant to the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended ("IEPF Rules"), all shares in respect of which dividend has remained unclaimed/unpaid for seven consecutive years or more shall be transferred by the Company in favour of IEPF Authority.

In pursuance of the IEPF Rules, the Company has communicated individually to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF. The Company has also uploaded the details of such shareholders whose shares are due for transfer to IEPF on its website at [www.nationalfertilizers.com](http://www.nationalfertilizers.com) under "Investors Desk".

### 9. Go Green Initiative

To support green initiative, Members who have not registered their email address so far or who want to update their e-mail address are requested to approach their respective DP (for electronic holding) or with M/s. MAS Services Limited/Company (for physical holding), for receiving all communications electronically.

For National Fertilizers Limited,

Sd/-

(Raj Kumar)

Company Secretary

A-11914

Place: New Delhi.  
Date: 26.08.2019



## NATIONAL FERTILIZERS LIMITED

(A Government of India Undertaking)

CIN:L74899DL1974GOI007417

Regd Off.: Scope Complex, Core 3, 7 Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi 110003

Website : [www.nationalfertilizers.com](http://www.nationalfertilizers.com), Email ID: [investor@nfl.co.in](mailto:investor@nfl.co.in)

Telephone: 011-24360066, 24361252

### Notice of 45th Annual General Meeting, Book Closure and Remote e-Voting Information

1. Notice is hereby given that the 45th Annual General Meeting (AGM) of the Members of National Fertilizers Limited ("Company") will be held on Wednesday, the 18th day of September, 2019 at 2.30 P.M. at Joseph Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003, to transact the business as set out in the Notice thereof. Notice of 45th AGM together with Annual Report including Standalone & Consolidated Financial Statements, Auditors' Report and Board's Report for the financial year ended 31st March, 2019 have been sent to the Members of the Company in the permitted mode. The dispatch of the Notice of AGM has been completed on 24th August, 2019. Notice and Annual Report is also available on the Company's website viz. [www.nationalfertilizers.com](http://www.nationalfertilizers.com) as well as on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) viz. [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com)

#### 2. Book Closure

Notice is also hereby given under Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 that the Register of the Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 12.09.2019 to 18.09.2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM and payment of dividend.

#### 3. Voting through electronic mode

(a) In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide Remote e-voting facility to its Members enabling them to cast their vote electronically for all the resolutions as set in the AGM Notice dated 02.08.2019 through the e-voting services provided by NSDL. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or by means of ballot paper at the AGM venue is 11.09.2019.

(b) The remote e-voting period will commence on Sunday, September 15, 2019 at 9.00 A.M. (IST) and end on Tuesday, September 17, 2019 at 5.00 P.M. (IST). The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The detailed procedure/instructions for remote e-voting are contained in the Notice of AGM.

(c) A person whose name is recorded in the Register of the Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. September 11, 2019 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through ballot paper.

(d) Any person becoming the Member of the Company after the dispatch of Notice of AGM, but on or before the cut-off date, may obtain login ID & password by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or [info@masserv.com](mailto:info@masserv.com). However, if a person is already registered with NSDL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote through Remote e-voting.

(e) A Member may participate at the AGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be entitled to cast his/her vote again. Members may note that the facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM.

#### 4. Scrutinizer

The Board of Directors has appointed Shri Sachin Agarwal of M/s. Agarwal S. & Associates, Practising Company Secretary (CP.No. 5910) as Scrutinizer for conducting the voting/polling and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

#### 5. Proxy

A Member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote on a poll instead of himself and the Proxy need not be a member of the Company. The instrument appointing Proxy to be valid should be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the commencement of the meeting i.e. by 2.30 P.M. Monday, September 16, 2019.

#### 6. Contact details

(a) Members are requested to read the instructions pertaining to Remote e-voting as printed in the AGM notice carefully. In case of any queries/concern/grievance, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and Remote e-voting user manual for Members available at the Download Section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or contact Mr. Amit Vishal, Sr. Manager, NSDL through e-mail at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in)/[amitv@nsdl.co.in](mailto:amitv@nsdl.co.in) or on Toll Free No: 1800-222-990 / Telephone No.: 022-24994360 or Mr. Sharwan Mangia, General Manager, M/s. MAS Service Limited (Registrar & Transfer Agent) through email at [sm@masserv.com](mailto:sm@masserv.com) or on Telephone No. 011-26387281/82/83.

(b) The documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM are open for inspection at the Registered Office of the Company on all working days (barring Saturday & Sunday) between 10.30 A.M. to 3.30 P.M. prior to the Annual General Meeting.

#### 7. Unclaimed Dividend

As per applicable statutory provisions, the Company will be transferring the unpaid/unclaimed amount relating to Dividend for the financial year 2011-12 to Investor Education & Protection Fund (IEPF) in October, 2019. Members who have not encashed their dividend for the financial year 2011-12 and thereafter, are advised to write to M/s. MAS Services Limited, T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi - 110 020 to claim the same.

#### 8. Transfer of shares to IEPF

The Members may kindly note that pursuant to the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended ("IEPF Rules"), all shares in respect of which dividend has remained unclaimed/unpaid for seven consecutive years or more shall be transferred by the Company in favour of IEPF Authority.

In pursuance of the IEPF Rules, the Company has communicated individually to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF. The Company has also uploaded the details of such shareholders whose shares are due for transfer to IEPF on its website at [www.nationalfertilizers.com](http://www.nationalfertilizers.com) under "Investors Desk".

#### 9. Go Green Initiative

To support green initiative, Members who have not registered their email address so far or who want to update their e-mail address are requested to approach their respective DP (for electronic holding) or with M/s. MAS Services Limited/Company (for physical holding), for receiving all communications electronically.

For National Fertilizers Limited,  
Sd/-

(Raj Kumar)

Company Secretary

A-11914

Place: New Delhi.  
Date: 26.08.2019

FINANCIAL EXPRESS

TUESDAY, AUGUST 27, 2019



# नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उपलब्ध)

CIN:L74899DL1974GOI007417

पंजीकृत कार्यालय: रक्षा कान्पलेक्स, कोर 3, 7 इस्टीमेटेड एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003  
वेबसाइट: www.nationalfertilizers.com, ईमेल आईडी: investor@nfl.co.in  
दूरभाष: 011-24360066, 24361252, फ़ैक्स: 011-24361553

## 45 वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर और रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी

1. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि, सूचना में दी गई कार्यवाही के कार्यान्वयन के लिए, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की 45वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 18 सितंबर, 2019 को दोपहर 2.30 बजे, जोसेफ स्टीन ऑडिटोरियम, इंडिया हेबिटेड सेंटर, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 पर आयोजित की जाएगी। 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और बोर्ड की रिपोर्ट सहित वार्षिक प्रतिवेदन के साथ 45 वीं एजीएम की सूचना कंपनी के सदस्यों को अनुमत माध्यम से भेज दी गई है। एजीएम की सूचना का प्रेषण 24 अगस्त, 2019 को पूरा हो गया है। सूचना और वार्षिक प्रतिवेदन कंपनी की वेबसाइट www.nationalfertilizers.com और साथ ही नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

### 2. बुक क्लोजर

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 और सेबी के विनियम, 2018 के नियम 42 (सूचीबद्ध करने की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) के साथ पढ़ी जाने वाली कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के तहत भी एतद्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम के उद्देश्य और लक्ष्य के मुताबिक के लिए कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और वॉटर ड्रासिकर बुक्स 12.09.2019 से 18.09.2019 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे।

### 3. इलेक्ट्रॉनिक मॉड के माध्यम से मतदान

(क) समय समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी के विनियम, 2015 के नियम 44 (सूचीबद्ध करने की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) के साथ पढ़ी जाने वाली कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुपालन में कंपनी अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करती है, जो उन्हें एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से एजीएम सूचना दिनांक 02.08.2019 में निर्धारित सभी प्रस्तावों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने में सक्षम बनाएगी। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से या एजीएम स्थल पर बिलेट पेपर के माध्यम से मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तारीख 11.09.2019 है।

(ख) रिमोट ई-वोटिंग की अवधि रविवार 15 सितंबर, 2019 को सुबह 9 बजे (भागस) से शुरू होकर मंगलवार 17 सितंबर, 2019 को शाम 5 बजे (भागस) समाप्त होगी। उसके बाद मतदान के लिए ई-वोटिंग ऑनब्लू को एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया/निर्देश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं।

(ग) वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थियों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि तक, यानी 11 सितंबर, 2019 तक, दर्ज किया गया है, केवल वही वरुध ई-वोटिंग या बिलेट पेपर के माध्यम से एजीएम में मतदान की सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा।

(घ) एजीएम के नोटिस के प्रेषण के बाद, लेकिन कट-ऑफ तिथि पर या उससे पहले, कंपनी का सदस्य बनने वाला कोई भी व्यक्ति evoting@nsdl.co.in या info@masserv.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो वह रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।

(ङ) कोई भी सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के अपने अधिकार का उपयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है लेकिन यह फिर से अपना मतदान करने का हकदार नहीं होगा। सदस्य ध्यान दें कि मतदान के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी।

### 4. संवीक्षक

निदेशक मंडल ने मतदान/रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालन के लिए मैसर्स अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स के श्री सचिन अग्रवाल, प्रिविलेजिड कंपनी सेक्रेटरी (सीपी नं. 5910), को संवीक्षक नियुक्त किया है।

### 5. प्रतिनिधि

बैठक में भाग लेने और मतदान करने का अधिकार रखने वाला सदस्य स्वयं मतदान में भाग लेने और मतदान करने के बजाय प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार है और प्रतिनिधि को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रतिनिधि नियुक्त करने वाला दस्तावेज बैठक के प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा कर दिया जाना चाहिए, यानी सोमवार, 16 सितंबर, 2019 को दोपहर 2.30 बजे तक।

### 6. संपर्क सूत्र

(क) सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम सूचना में दिए गए रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें। किसी भी प्रश्न/दिश/शिकायत के मामले में, आप सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) और www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध सदस्यों के लिए रिमोट ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका का संदर्भ ले सकते हैं या श्री अमित विशाल, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल से ई-मेल evoting@nsdl.co.in / amitv@nsdl.co.in पर या टोल फ्री नंबर पर : 1800-222-990 / टेलीफोन नंबर 22-24994380 या श्री शारदान मंगला, महाप्रबंधक, मे. एमएस सर्विस लिमिटेड (रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट) से ईमेल sm@masserv.com या टेलीफोन नं. 011-26387281/82/83 के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।

(ख) एजीएम में आवश्यक कार्यवाही के मामलों से संबंधित दस्तावेज वार्षिक आम बैठक से पहले निरीक्षण के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवस (रविवार और रविवार को छोड़कर) 10.30 बजे से 3.30 बजे के बीच उपलब्ध रहेंगे।

### 7. अदावी लामांश

लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, कंपनी अक्टूबर, 2019 में वित्तीय वर्ष 2011-12 के डिविडेंड से संबंधित अदावत/अदावी राशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में स्थानांतरित करेगी। जिन सदस्यों ने वित्तीय वर्ष 2011-12 और उसके बाद के अपने लामांश को नगदीकृत नहीं किया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे इस राशि का दावा करने के लिए मे. एमएस सर्विस लिमिटेड, टी-34, द्वितीय तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण-II, नई दिल्ली-110 020 से संपर्क करें।

### 8. अंशों का आईईपीएफ में हस्तांतरण

सदस्य कृपया ध्यान दें कि निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा-परीक्षा, हस्तांतरण एवं वापसी) नियम, 2016, संशोधित (आईईपीएफ नियम) के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे सभी अंशों को, जिनका लामांश लगातार सात वर्षों तक अदावत/अदावी रहा है, कंपनी द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। आईईपीएफ नियमों के अनुसरण में, कंपनी ने उन अंशधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचित कर दिया है जिनके अंश आईईपीएफ को हस्तांतरित होने के लिए उत्तरदायी हैं। कंपनी ने ऐसे अंशधारकों का विवरण अपनी वेबसाइट www.nationalfertilizers.com पर भी, "निवेशक केस्क" के तहत, अपलोड किया है।

### 9. गो-ग्रीन पहल

पर्यावरणीय पहल का समर्थन करने के लिए, जिन सदस्यों ने अब तक अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है या जो अपना ई-मेल पता अपडेट करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे सभी संभावित इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने के लिए अपने संबंधित डीपी (इलेक्ट्रॉनिक के लिए) से या मैसर्स एमएस सर्विस लिमिटेड/कंपनी (कागजी प्रतियों के लिए) से संपर्क करें।

कृते नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

हस्ताक्षरित/-

(राज कुमार)

कंपनी सचिव

ए-11914

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 26.08.2019

जनसत्ता, 27 अगस्त, 2019